



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 578 राँची, मंगलवार,

16 जुलाई, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
संकल्प

08 फ़रवरी, 2019

संख्या-5/आरोप -1-250/2014 का० 1211-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री गोपाल दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-137/03, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के विरुद्ध भवन प्लान के नक्शा स्वीकृति में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1254/न०वि०वि०, दिनांक-23.05.2009 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री दास के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों कि जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद द्वारा श्री दास को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री दास द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों कि जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मो० मुमताज़ अली अहमद, सचिव, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----